

## DU MPhil Phd in Philosophy

Topic:- DU\_J19\_MPHIL\_PHIL

**1) Which of the following theory focused upon the moral significance of individuals' capability of achieving the kind of lives they have reason to value?**  
निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों द्वारा जीवन के ऐसे प्रकारों, जिनके प्रति उनमें तर्कसंगत सम्मान हो, को प्राप्त करने की योग्यता के नैतिक महत्त्व पर केंद्रित थी ?

**[Question ID = 12481]**

1. Rawls' liberal theory of Justice / रॉल्स का न्याय का सिद्धांत [Option ID = 19921]
2. J. S. Mill's Utilitarianism / मिल का उपयोगितावाद [Option ID = 19922]
3. Kant's theory of moral maxim / कांट का नैतिक मैक्सिम का सिद्धांत [Option ID = 19924]
4. Amartya Sen's Capability theory / अमर्त्य सेन का योग्यता सिद्धांत [Option ID = 19923]

**Correct Answer :-**

- Rawls' liberal theory of Justice / रॉल्स का न्याय का सिद्धांत [Option ID = 19921]

**2) Which *darśana* supports the view that particulars are known exclusively by perception and universals exclusively by inference:**  
कौन से दर्शन इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि प्रत्यक्ष द्वारा केवल विशेष जाना जाता है और अनुमान द्वारा केवल सार्वभौमिक जाना जाता है:

**[Question ID = 12515]**

1. Buddhism / बौद्ध दर्शन [Option ID = 20057]
2. Nyāya / न्याय [Option ID = 20058]
3. Vaiśeṣika / वैशेषिक [Option ID = 20059]
4. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 20060]

**Correct Answer :-**

- Buddhism / बौद्ध दर्शन [Option ID = 20057]

**3) Shānti parva of Mahābhārata Deals with:**  
शांति पर्व विचार करता है: **[Question ID = 12503]**

1. Duties of a King / राजा का कर्त्तव्य [Option ID = 20011]
2. Duties of Elder Brother / बड़े भाई का कर्त्तव्य [Option ID = 20009]
3. All the above / उपरोक्त सभी [Option ID = 20012]
4. Duties of a Husband / पति का कर्त्तव्य [Option ID = 20010]

**Correct Answer :-**

- Duties of Elder Brother / बड़े भाई का कर्त्तव्य [Option ID = 20009]

**4) Kant argued that the ontological argument was invalid because**  
कांत ने तर्क दिया कि ऑटोलॉजिकल तर्क अमान्य है क्योंकि **[Question ID = 12504]**

1. God may not exist / भगवान मौजूद नहीं हो सकता है [Option ID = 20016]
2. God does not exist / भगवान मौजूद नहीं है [Option ID = 20013]
3. Existence is a predicate / अस्तित्व एक विधेय है [Option ID = 20014]
4. Existence is not a predicate / अस्तित्व एक विधेय नहीं है [Option ID = 20015]

**Correct Answer :-**

- God does not exist / भगवान मौजूद नहीं है [Option ID = 20013]

**5) That power is not simply repressive but is productive is argued by शक्ति केवल दमनकारी नहीं है, बल्कि उत्पादक है, इसके द्वारा तर्क दिया जाता है [Question ID = 12522]**

1. Foucault / फूको [Option ID = 20086]
2. Marx / मार्क्स [Option ID = 20085]
3. Sartre / सार्त्रे [Option ID = 20088]
4. Bacon / बेकन [Option ID = 20087]

**Correct Answer :-**

- Marx / मार्क्स [Option ID = 20085]

**6) Who argued that philosophy should be edifying rather than constructive, representative and systematic? किसने तर्क दिया कि दर्शन को रचनात्मक, प्रतिनिधि और व्यवस्थित के बजाय शिक्षाप्रद करना चाहिए? [Question ID = 12511]**

1. Richard Rorty / रिचर्ड रॉर्टी [Option ID = 20042]
2. Kant / कांत [Option ID = 20041]
3. Husserl / हुसर्ल [Option ID = 20043]
4. Frege / फ्रेगे [Option ID = 20044]

**Correct Answer :-**

- Kant / कांत [Option ID = 20041]

**7) In Plato's dialogue *Parmenides*, Zeno argues that प्लेटो के संवाद परमेनिडिस में, ज़ेनो का तर्क है कि**

**[Question ID = 12486]**

1. Objects are both like and unlike each other / वस्तुओं एक दूसरे की तरह और विपरीत दोनों हैं [Option ID = 19944]
2. the theory of Forms is absurd / फॉर्म का सिद्धांत बेतुका है [Option ID = 19941]
3. the theory of Forms is not absurd / फॉर्म का सिद्धांत बेतुका नहीं है [Option ID = 19942]
4. Parmenides' theory is wrong / पनमाइडिस का सिद्धांत गलत है [Option ID = 19943]

**Correct Answer :-**

- the theory of Forms is absurd / फॉर्म का सिद्धांत बेतुका है [Option ID = 19941]

**8) Aphorism *Yogash Citta-Vrtti-Nirodhah* belongs to which chapter of Yoga Sutra: सूत्र योगश् चित्त-वृत्ति-निरोधः किस पाद से संबंधित है: [Question ID = 12495]**

1. Vibhuti Pada / विभूति-पाद [Option ID = 19977]
2. Samadhi Pada / समाधि-पाद [Option ID = 19978]
3. Sadhana Pada / साधना-पाद [Option ID = 19979]
4. Kaivalya Pada / कैवल्य-पाद [Option ID = 19980]

**Correct Answer :-**

- Vibhuti Pada / विभूति-पाद [Option ID = 19977]

**9) Those who hold that there are moral facts, and in the light of these moral facts people's moral judgements can be true or false are:**

जो लोग मानते हैं कि नैतिक तथ्य हैं, और इन के प्रकाश में लोगों के नैतिक निर्णय सही और गलत हो सकते हैं, वह: [Question ID = 12518]

1. Moral relativists / नैतिक सापेक्षवादी हैं [Option ID = 20072]
2. Moral realists and relativists / नैतिक यथार्थवादी और सापेक्षवादी हैं [Option ID = 20071]
3. Error theorists / त्रुटि सिद्धांतकार हैं [Option ID = 20069]
4. Moral realists / नैतिक यथार्थवादी हैं [Option ID = 20070]

**Correct Answer :-**

- Error theorists / त्रुटि सिद्धांतकार हैं [Option ID = 20069]

**10) In Cārvāka philosophy, Moksha is associated with –**

चार्वाक में मृत्यु को ---से जोड़ा गया है। [Question ID = 12485]

1. Artha / अर्थ [Option ID = 19940]
2. Dharma / धर्म [Option ID = 19937]
3. Kama / काम [Option ID = 19938]
4. Death / मृत्यु [Option ID = 19939]

**Correct Answer :-**

- Dharma / धर्म [Option ID = 19937]

**11) Space according to Kant refers to**

कांत के अनुसार अंतरिक्ष संदर्भित करता है: [Question ID = 12509]

1. a relation between objects / वस्तुओं के बीच एक संबंध [Option ID = 20034]
2. a self subsistent reality / एक आत्मनिर्भर वास्तविकता [Option ID = 20033]
3. a subjective condition of sensibility / संवेदनशीलता की एक व्यक्तिपरक स्थिति [Option ID = 20036]
4. an empirical concept / एक अनुभवजन्य अवधारणा [Option ID = 20035]

**Correct Answer :-**

- a self subsistent reality / एक आत्मनिर्भर वास्तविकता [Option ID = 20033]

**12) Friedrich Nietzsche viewed 'Master morality' as**

फ्रेडरिक नीत्शे ने मास्टर नैतिकता को किस रूप में देखा: [Question ID = 12508]

1. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 20032]
2. Christian morality / ईसाई नैतिकता [Option ID = 20031]
3. Life denying morality / नैतिकता को नकारने वाला जीवन [Option ID = 20030]
4. An affirmation of life / जीवन का प्रतिज्ञान [Option ID = 20029]

**Correct Answer :-**

- An affirmation of life / जीवन का प्रतिज्ञान [Option ID = 20029]

**13) The actuality for Aristotle is prior to potentiality in the following manner**

अरस्तू के अनुसार वास्तविकता निम्नलिखित तरीके से क्षमता से पहले है [Question ID = 12516]

1. All of the above / उपरोक्त सभी [Option ID = 20064]

2. In substance / पदार्थ में [Option ID = 20063]
3. In time / समय में [Option ID = 20062]
4. In account / विवरण में [Option ID = 20061]

**Correct Answer :-**

- In account / विवरण में [Option ID = 20061]

**14) The rational capacities for Aristotle are those that bring about**  
**अरस्तू के लिए तर्कसंगत क्षमता वे हैं जो निम्नलिखित परिणाम लाते हैं [Question ID = 12496]**

1. All of the above / उपरोक्त सभी [Option ID = 19984]
2. Two-way consequences / दो- दिशा परिणाम [Option ID = 19983]
3. No consequences / कोई परिणाम नहीं [Option ID = 19981]
4. One-way consequences / एक- दिशा परिणाम [Option ID = 19982]

**Correct Answer :-**

- No consequences / कोई परिणाम नहीं [Option ID = 19981]

**15) The Form of the Good for Plato is:**  
**प्लेटो के लिए "फॉर्म ऑफ़ गुड": [Question ID = 12510]**

1. the ultimate object of knowledge / डायलेक्टिक के माध्यम से समझा जा सकता है [Option ID = 20038]
2. to be approached through Dialectic / का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है [Option ID = 20037]
3. hard to obtain knowledge of / ज्ञान की अंतिम वस्तु है [Option ID = 20039]
4. all of the above / उपरोक्त सभी [Option ID = 20040]

**Correct Answer :-**

- to be approached through Dialectic / का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है [Option ID = 20037]

**16) The author of *A System of Logic* is**  
**"ए सिस्टम ऑफ़ लॉजिक" के लेखक हैं: [Question ID = 12494]**

1. Gottlob Frege / गोटलोब फ्रेगे [Option ID = 19974]
2. Bertrand Russell / बर्ट्रैंड रसेल [Option ID = 19973]
3. John Stuart Mill / जॉन स्टुअर्ट मिल [Option ID = 19975]
4. Alfred North Whitehead / अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड [Option ID = 19976]

**Correct Answer :-**

- Bertrand Russell / बर्ट्रैंड रसेल [Option ID = 19973]

**17) A 'maxim' in Kant's philosophy is**  
**कांट के दर्शन में 'मैक्सिम' [Question ID = 12498]**

1. An example of an imperfect duty / एक त्रुटिपूर्ण कर्तव्य है [Option ID = 19991]
2. An example of a relative duty / एक तुलनात्मक कर्तव्य है [Option ID = 19992]
3. An action guiding principle / एक कर्तव्य को दर्शाने वाला सिद्धांत है [Option ID = 19989]
4. An example of a perfect duty / एक त्रुटिरहित कर्तव्य है [Option ID = 19990]

**Correct Answer :-**

- An action guiding principle / एक कर्तव्य को दर्शाने वाला सिद्धांत है [Option ID = 19989]

**18) 'Hinduism is inimical to equality, antagonistic to liberty and opposed to fraternity' is stated by:**  
यह किसने कहा कि 'हिन्दू धर्म एकता का विरोधी, स्वतंत्रता का प्रतिरोधी और बंधुत्व के विपरीत है'? [Question ID = 12512]

1. M. K. Gandhi / एम. के. गाँधी [Option ID = 20045]
2. M. N. Roy / एम. एन. रॉय [Option ID = 20048]
3. B. R. Ambedkar / बी. आर. अंबेडकर [Option ID = 20047]
4. E. V. R. Periyar / ई. वी. आर. पेरियार [Option ID = 20046]

**Correct Answer :-**

- M. K. Gandhi / एम. के. गाँधी [Option ID = 20045]

**19) –  $(X \supset Y)$  is equivalent to which of the following?**  
–  $(X \supset Y)$  निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है: [Question ID = 12487]

1.  $Y \supset X$  [Option ID = 19945]
2.  $Y \& \neg X$  [Option ID = 19948]
3.  $X \& \neg Y$  [Option ID = 19947]
4.  $X \vee Y$  [Option ID = 19946]

**Correct Answer :-**

- $Y \supset X$  [Option ID = 19945]

**20) Truths of fact according to Leibniz are:**  
लाइबनिज़ के अनुसार तथ्य के सत्य : [Question ID = 12482]

1. Necessary truths / अनिवार्य सत्य है [Option ID = 19925]
2. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 19928]
3. Truths whose opposite is possible / वो सत्य है जिनके विपरीत संभव है [Option ID = 19926]
4. Not contingent truths / अनिश्चित सत्य नहीं है [Option ID = 19927]

**Correct Answer :-**

- Necessary truths / अनिवार्य सत्य है [Option ID = 19925]

**21) If X is true, Y is false and Z is true, then which of the following is false?**  
यदि X सत्य है, Y असत्य है और Z सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है [Question ID = 12477]

1.  $(X \supset Y) \equiv Z$  [Option ID = 19906]
2.  $(X \supset Y) \supset Z$  [Option ID = 19905]
3.  $(X \vee Y) \vee Z$  [Option ID = 19907]
4.  $(X \vee Y) \& Z$  [Option ID = 19908]

**Correct Answer :-**

- $(X \supset Y) \supset Z$  [Option ID = 19905]

**22) The equivalent formula of  $(x)Gx$  is which of the following:**  
 $(x)Gx$  का समतुल्य सूत्र निम्नलिखित में से है [Question ID = 12497]

1.  $\neg(\exists x) \neg (Gx)$  [Option ID = 19988]
2.  $(\exists x) \neg (Gx)$  [Option ID = 19987]
3.  $\neg(x) \neg Gx$  [Option ID = 19986]
4.  $(x) \neg Gx$  [Option ID = 19985]

**Correct Answer :-**

- $(x) - Gx$  [Option ID = 19985]

**23) Frege took arithmetical truths to be**

फ्रेगे ने अंकगणितीय सत्य को निम्नलिखित में से क्या मानते थे [Question ID = 12500]

1. Analytic / विश्लेषणात्मक सत्य [Option ID = 19997]
2. Synthetic a priori / सिंथेटिक एप्रीओरी सत्य [Option ID = 20000]
3. A posteriori / अन्यभाव के पश्चात सत्य [Option ID = 19999]
4. Synthetic / सिंथेटिक सत्य [Option ID = 19998]

**Correct Answer :-**

- Analytic / विश्लेषणात्मक सत्य [Option ID = 19997]

**24) The essence of a thing for Aristotle in his Metaphysics is**

तत्वमीमांसा ग्रंथ में अरस्तू के लिए किस भी चीज का सार निम्नलिखित है [Question ID = 12478]

1. What a thing is because it is a compound of things / का एक संयुक्त/योग है [Option ID = 19910]
2. What a thing is because God desires it that way / क्योंकि भगवान इसे इस तरह से चाहते हैं [Option ID = 19911]
3. What a thing is in the world of pure forms / शुद्ध रूपों की दुनिया की चीज है [Option ID = 19912]
4. What a thing is in its own right / कोई चीज जो अपने आप में है [Option ID = 19909]

**Correct Answer :-**

- What a thing is in its own right / कोई चीज जो अपने आप में है [Option ID = 19909]

**25) 'śaḍ-darśana' includes:**

'षड्दर्शन' में समावेशित हैं: [Question ID = 12505]

1. All of the above / उपरोक्त में से सभी [Option ID = 20020]
2. *Sāṃkhya, Yoga, Nyāya, Vaiśeṣika, Mīmāṃsā, Vedānta* / सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त [Option ID = 20017]
3. *Cārvāka, Yoga, Jainism, Mīmāṃsā, Sāṃkhya, Buddhism* / चार्वाक, योग, जैनधर्म, मीमांसा, सांख्य, बौद्ध धर्म [Option ID = 20019]
4. Buddhism, Jainism, *Nyāya, Cārvāka, Vedānta, Yoga* / बौद्ध धर्म, जैनधर्म, न्याय, चार्वाक, वेदान्त [Option ID = 20018]

**Correct Answer :-**

- *Sāṃkhya, Yoga, Nyāya, Vaiśeṣika, Mīmāṃsā, Vedānta* / सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त [Option ID = 20017]

**26) "We must accept probabilities rather than absolute facts, for ethics is not like geometry or physics." To who is this statement attributed?**

"हमें निरपेक्ष तथ्यों की बजाय संभावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नीति शास्त्र ज्यामिति या भौतिकविज्ञान की तरह नहीं है।" यह कथन किसका है? [Question ID = 12479]

1. Bentham / बेन्थैम [Option ID = 19915]
2. Mill / मिल [Option ID = 19914]
3. Kant / कंट [Option ID = 19913]
4. Aristotle / अरस्तू [Option ID = 19916]

**Correct Answer :-**

- Kant / कंट [Option ID = 19913]

**27) "Each nation has its own centre of happiness within itself, just as every sphere has its centre of gravity." To who is this statement attributed?**

"प्रत्येक क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की तरह, प्रत्येक राष्ट्र के भीतर ही उसके सुख का केंद्र होता है।" यह कथन किसका है? [Question ID = 12521]

1. Herder / हर्डर [Option ID = 20082]

2. Mill / मिल [Option ID = 20083]
3. Kant / कंट [Option ID = 20081]
4. Locke / लॉक [Option ID = 20084]

**Correct Answer :-**

- Kant / कंट [Option ID = 20081]

**28) Deconstruction as a technique for uncovering the multiple interpretation of texts is developed by**  
ग्रंथों की बहु व्याख्या को उजागर करने के लिए एक तकनीक के रूप में विखण्डन (डीकंस्ट्रक्शन) किसके द्वारा विकसित किया गया है [Question ID = 12480]

1. Jaspers / जैस्पर्स [Option ID = 19920]
2. Sartre / सार्त्रे [Option ID = 19919]
3. Derrida / डेरिडा [Option ID = 19918]
4. Hegel / हेगेल [Option ID = 19917]

**Correct Answer :-**

- Hegel / हेगेल [Option ID = 19917]

**29) "X & Y" and "X v Y" are**  
"X & Y" और "X v Y" हैं: [Question ID = 12519]

1. Consistent with each other / एक दूसरे के साथ संगत [Option ID = 20073]
2. Inconsistent with each other / एक दूसरे के साथ असंगत [Option ID = 20074]
3. Contradictory with each other / एक दूसरे के साथ विरोधाभासी [Option ID = 20075]
4. Equivalent to each other / एक दूसरे के समतुल्य [Option ID = 20076]

**Correct Answer :-**

- Consistent with each other / एक दूसरे के साथ संगत [Option ID = 20073]

**30) For Heidegger, the study of human being as Dasein is -**  
हाइडेगर के लिए, अस्तित्व (Dasein) के रूप में मानव का अध्ययन है

[Question ID = 12501]

1. hypothetical inquiry / काल्पनिक जांच [Option ID = 20004]
2. nomological inquiry / नामांकित जांच [Option ID = 20003]
3. ontic inquiry / ऑंटिक जांच [Option ID = 20002]
4. ontological inquiry / ऑंटोलॉजिकल जांच [Option ID = 20001]

**Correct Answer :-**

- ontological inquiry / ऑंटोलॉजिकल जांच [Option ID = 20001]

**31) Hilary Putnam's view regarding meaning is that**  
हिलेरी पटनम का अर्थ के बारे में दृष्टिकोण है [Question ID = 12523]

1. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 20092]
2. It is not in the head / यह सिर में नहीं है [Option ID = 20089]
3. It does not involve role of experts / इसमें विशेषज्ञों की भूमिका शामिल नहीं है [Option ID = 20090]
4. It is an idea in the head / यह सिर में एक विचार है [Option ID = 20091]

**Correct Answer :-**

- It is not in the head / यह सिर में नहीं है [Option ID = 20089]

**32) The following constraint, for all w1, w2, if w1Rw2, then w2Rw1 is \_\_\_\_.**

सभी w1, w2 के लिए, यदि w1Rw2 है, और w2Rw1 है, यह \_\_\_\_ अवरोध/शर्त है [Question ID = 12507]

1. Reflexivity / प्रतिबिंबता [Option ID = 20025]
2. Transitivity / संक्रामिता [Option ID = 20027]
3. Symmetry / समरूपता [Option ID = 20026]
4. Extendability / विस्तारता [Option ID = 20028]

**Correct Answer :-**

- Reflexivity / प्रतिबिंबता [Option ID = 20025]

**33) Which of the following statements is incorrect with reference to Mill's view on sanctions:**

प्रतिबंधों पर मिल के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है: [Question ID = 12488]

1. Education teaches us the right feelings for humanity. / शिक्षा हमें मानवता के लिए सही भावना सिखाती है। [Option ID = 19951]
2. The motive for observance of sanctions is attached to utilitarian morality as powerfully as it is in any other morality. / प्रतिबंधों का पालन करने का उद्देश्य अन्य नैतिकता की तरह उपयोगितावादी नैतिकता से भी उसी शक्ति से जुड़ा हुआ है [Option ID = 19950]
3. External sanctions are more effective as they work both through peer pressure and divine reprimand. / बाहरी प्रतिबंध अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि वे दोनों सहकर्मी दबाव और दैवीय फटकार के डर से काम करते हैं। [Option ID = 19952]
4. Moral feelings are not innate but acquired. / नैतिक भावनाएँ जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित हैं [Option ID = 19949]

**Correct Answer :-**

- Moral feelings are not innate but acquired. / नैतिक भावनाएँ जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित हैं [Option ID = 19949]

**34) Which of the schools of Indian Philosophy are considered as a part of *anvikshiki* (philosophy) by Kautilya?**

कौटिल्य ने भारतीय दर्शन के किन स्कूलों को *अनिवीक्षिकी* का भाग कहा? [Question ID = 12493]

1. Nyaya, Viseshika, Vedanta, samkhya / न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य [Option ID = 19972]
2. Samkhya, Vedanta and Mimamsa / सांख्य, वेदांत, मीमांसा [Option ID = 19971]
3. Lokayata, Ajivikas and Buddhism / लोकायत, आजीवक, बौद्ध दर्शन [Option ID = 19970]
4. Samkhya, Yoga and Lokayata / सांख्य, योग, लोकायत [Option ID = 19969]

**Correct Answer :-**

- Samkhya, Yoga and Lokayata / सांख्य, योग, लोकायत [Option ID = 19969]

**35) The modal system Kpot is known as:**

मोडल प्रणाली Kpot \_\_\_\_ कहा जाता है। [Question ID = 12520]

1. S2 [Option ID = 20077]
2. S3 [Option ID = 20078]
3. S5 [Option ID = 20080]
4. S4 [Option ID = 20079]

**Correct Answer :-**

- S2 [Option ID = 20077]

**36) According to Deleuze and Guattari philosophy is all about:**

डेल्यूज़ (Deleuze) और गुअतारि (Guattari) के अनुसार दर्शन का मतलब है [Question ID = 12490]

1. Creating concepts / अवधारणाएँ बनाना [Option ID = 19960]



2. Communication / संचा [Option ID = 19959]
3. Reflection / सोचना [Option ID = 19957]
4. Contemplation / चिंतन [Option ID = 19958]

**Correct Answer :-**

- Reflection / सोचना [Option ID = 19957]

**37) According to Quine, the two dogmas of empiricism are**  
**क्वाइन के अनुसार, अनुभववाद के दो सिद्धांत हैं [Question ID = 12524]**

1. impressions and ideas / प्रभाव (इंप्रेशन) और अवधारणा (विचार) [Option ID = 20093]
2. analytic synthetic distinction and reductionism / एनालिटिक-संश्लेषिक (सिंथेटिक) भेद और न्यूनतावाद [Option ID = 20094]
3. functionalism and analysis / क्रियाशीलता और विश्लेषण [Option ID = 20096]
4. reductionism and functionalism / न्यूनतावाद और क्रियाशीलता [Option ID = 20095]

**Correct Answer :-**

- impressions and ideas / प्रभाव (इंप्रेशन) और अवधारणा (विचार) [Option ID = 20093]

**38) According to Hume, Ideas**  
**ह्यूम के अनुसार विचार: [Question ID = 12489]**

1. Are faint and bland images of the impression in thinking and reasoning. / चिंतन और तर्क में संस्करण की धुंधली और सौम्य छवियां हैं। [Option ID = 19956]
2. Are perceptions that affect the mind with the most force and violence / वो धारणाएँ जो मन को सबसे अधिक बल और हिंसा से प्रभावित करती हैं [Option ID = 19954]
3. Are known for their vividness, clarity and distinctness / को उनकी विशदता, स्पष्टता और विशिष्टता के लिए जाना जाता है [Option ID = 19953]
4. Include sensations, passions and emotions / में संवेदनाएँ, जुनून और भावनाएँ शामिल होती हैं [Option ID = 19955]

**Correct Answer :-**

- Are known for their vividness, clarity and distinctness / को उनकी विशदता, स्पष्टता और विशिष्टता के लिए जाना जाता है [Option ID = 19953]

**39) According to the Tractatus pictorial relationship is**  
**त्राकताटस (Tractatus) के अनुसार चित्रिय संबंध (pictorial relation) है [Question ID = 12491]**

1. The possibility of connection among the elements of a picture / एक चित्र के अवयवों के बीच संबंध की संभावना [Option ID = 19964]
2. The relation between the respective standpoints of the picture and reality / चित्र और वास्तविकता के संबंधित दृष्टिकोण के बीच संबंध [Option ID = 19961]
3. The correlations of the elements of a picture with objects / वस्तुओं के साथ एक चित्र के अवयवों का सहसंबंध [Option ID = 19962]
4. The connection among the elements of a picture / एक चित्र के अवयवों के बीच संबंध [Option ID = 19963]

**Correct Answer :-**

- The relation between the respective standpoints of the picture and reality / चित्र और वास्तविकता के संबंधित दृष्टिकोण के बीच संबंध [Option ID = 19961]

**40) According to Eliminative Materialism Folk Psychology can be reduced to**  
**एलिमिनेटिव भौतिकवाद के अनुसार लोक मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किसमें बदला जा सकता है [Question ID = 12513]**

1. Completed neuroscience / पूर्ण तंत्रिका विज्ञान [Option ID = 20050]
2. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 20052]
3. Propositions about completed neuroscience / पूर्ण तंत्रिका विज्ञान के बारे में प्रस्ताव [Option ID = 20049]
4. Propositions about incomplete neuroscience / अपूर्ण तंत्रिका विज्ञान के बारे में प्रस्ताव [Option ID = 20051]

**Correct Answer :-**

- Propositions about completed neuroscience / पूर्ण तंत्रिका विज्ञान के बारे में प्रस्ताव [Option ID = 20049]

**41) According to Identity theory a brain state and a mental state are**  
आइडेंटिटी थ्योरी के अनुसार, मस्तिष्क अवस्था और मानसिक स्थिति होती है [Question ID = 12499]

1. Necessarily identical with each other / एक दूसरे के साथ निश्चित रूप से समान [Option ID = 19993]
2. Probably identical with each other / संभवतः एक दूसरे के साथ समान [Option ID = 19994]
3. Contingently identical with each other / आकस्मिक रूप से एक दूसरे के साथ समान [Option ID = 19995]
4. Improbably identical with each other / एक दूसरे के साथ किसी तरीके से समान [Option ID = 19996]

**Correct Answer :-**

- Necessarily identical with each other / एक दूसरे के साथ निश्चित रूप से समान [Option ID = 19993]

**42) According to Russell, 'The man in the green shirt' is an example of**  
रसल के अनुसार 'वह व्यक्ति जो हरी शर्ट पहना है' [Question ID = 12476]

1. A definite description / एक निश्चित वर्णन है [Option ID = 19904]
2. An indefinite description / एक अनिश्चित वर्णन है [Option ID = 19901]
3. A positive description / एक सकारात्मक वर्णन है [Option ID = 19903]
4. A vague description / एक अस्पष्ट वर्णन है [Option ID = 19902]

**Correct Answer :-**

- An indefinite description / एक अनिश्चित वर्णन है [Option ID = 19901]

**43) According to *Philosophical Investigations* ostensive definitions can be disambiguated**  
दार्शनिक अन्वेषण (*Philosophical Investigations*) ग्रंथ के अनुसार प्रदर्शक लक्षण (*ostensive definition*) की अस्पष्टताओं को [Question ID = 12517]

1. only through their usage / केवल उनके उपयोग से ही हटाया जा सकता है। [Option ID = 20067]
2. only by further ostensions / केवल अतिरिक्त प्रदर्शनी से हटाया जा सकता है। [Option ID = 20065]
3. only by verbal explanations / केवल शाब्दिक स्पष्टीकरण द्वारा ही हटाया जा सकता है। [Option ID = 20066]
4. only with reference to a private image / केवल एक निजी प्रतिरूप से ही हटाया जा सकता है। [Option ID = 20068]

**Correct Answer :-**

- only by further ostensions / केवल अतिरिक्त प्रदर्शनी से हटाया जा सकता है। [Option ID = 20065]

**44) According to *Philosophical Investigations***  
दार्शनिक अन्वेषण (*Philosophical Investigations*) ग्रंथ के अनुसार [Question ID = 12506]

1. Every word has a fixed number of alternative meanings / हर शब्द के वैकल्पिक अर्थों की एक निश्चित संख्या होती है [Option ID = 20021]
2. Each word is incomplete and indeterminate in its meaning / प्रत्येक शब्द का अर्थ अपूर्ण और अनिश्चित है [Option ID = 20023]
3. Each word has an indefinite number of alternative meanings / प्रत्येक शब्द में वैकल्पिक अर्थ की अनिश्चित संख्या होती है [Option ID = 20022]
4. Each word signifies only a particular / प्रत्येक शब्द केवल किसी विशेष को दर्शाता है [Option ID = 20024]

**Correct Answer :-**

- Every word has a fixed number of alternative meanings / हर शब्द के वैकल्पिक अर्थों की एक निश्चित संख्या होती है [Option ID = 20021]

**45) According to Leibniz the relation between mind and body occurs through**  
लिबनिट्ज के अनुसार मन और शरीर के बीच का संबंध होता है [Question ID = 12502]

1. a relation of identity / अभिन्नता से [Option ID = 20007]
2. parallelism / समानांतरता से [Option ID = 20006]
3. causal interaction / कारण और कार्य के बीच परस्पर क्रिया से [Option ID = 20005]
4. concord between efficient causes and final causes / कुशल कारणों और अंतिम कारणों के बीच सहमति से [Option ID = 20008]

**Correct Answer :-**

- causal interaction / कारण और कार्य के बीच परस्पर क्रिया से [Option ID = 20005]

**46) According to Tagore, our real problem in India is:**

टैगोर के अनुसार, भारत में हमारी वास्तविक समस्या है: [Question ID = 12514]

1. Spiritual / आध्यात्मिक [Option ID = 20056]
2. Political / राजनैतिक [Option ID = 20053]
3. Social / सामाजिक [Option ID = 20055]
4. Economical / आर्थिक [Option ID = 20054]

**Correct Answer :-**

- Political / राजनैतिक [Option ID = 20053]

**47) For Heidegger, death-anxiety can lead to -**

हाइडेगर् के लिए, मृत्यु-चिंता \_\_\_\_\_ के कारण हो सकते हैं - [Question ID = 12492]

1. nausea / वमन [Option ID = 19967]
2. stress / तनाव [Option ID = 19968]
3. inauthenticity / अप्रामाणिकता [Option ID = 19966]
4. transcendence from average everydayness / औसत रोज़मर्रा से पारगमन [Option ID = 19965]

**Correct Answer :-**

- transcendence from average everydayness / औसत रोज़मर्रा से पारगमन [Option ID = 19965]

**48) For Heidegger, the human being is**

हाइडेगर् के लिए, इंसान है [Question ID = 12483]

1. an individual consciousness / एक व्यक्तिगत चेतना [Option ID = 19929]
2. being-with-others / दुसरो के साथ होने के नाते [Option ID = 19930]
3. not influenced by past experiences / पिछले अनुभवों से प्रभावित नहीं [Option ID = 19931]
4. not influenced by future projections / भविष्य के अनुमानों से प्रभावित नहीं [Option ID = 19932]

**Correct Answer :-**

- an individual consciousness / एक व्यक्तिगत चेतना [Option ID = 19929]

**49) Saul Kripke takes truths like Morning Star = Evening Star to be**

सौल क्रीपके "मॉर्निंग स्टार = इवनिंग स्टार" जैसी सच्चाइयों को सत्य मानते हैं

[Question ID = 12484]

1. A priori truths / बिना अनुभव के आधार पर [Option ID = 19934]
2. Contingent a priori truths / बिना अनुभव के और अनिश्चितता के आधार पर [Option ID = 19935]
3. Necessary a posteriori truths / अनुभव के पश्चात अनिवार्य सत्य प्राप्त करने पर [Option ID = 19936]
4. True by virtue of meaning / अर्थ के आधार पर [Option ID = 19933]

**Correct Answer :-**

- True by virtue of meaning / अर्थ के आधार पर [Option ID = 19933]

50)

**By *Rta* in Indian philosophy is meant**

**भारतीय दर्शन में ऋत है? [Question ID = 12475]**

1. Neither Cosmic Order nor Moral Order / दोनों में से कोई नहीं [Option ID = 19900]
2. Cosmic Order and Moral Order / दोनों विश्व व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था [Option ID = 19899]
3. Cosmic Order / विश्व व्यवस्था [Option ID = 19897]
4. Moral Order / नैतिक व्यवस्था [Option ID = 19898]

**Correct Answer :-**

- Cosmic Order / विश्व व्यवस्था [Option ID = 19897]